



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.10.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना मितौली पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त लक्ष्मी नारायण पुत्र ओमकार को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.10.2021 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 308/2021 धारा 493/504 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त लक्ष्मी नारायण पुत्र ओमकार निवासी ललहौना थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

लक्ष्मी नारायण पुत्र ओमकार निवासी ललहौना थाना मितौली जनपद खीरी

पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 महताब सिंह, थाना मितौली
- 2.का0 सुग्रीव दास
- 3.का0 विशाल सोनकर
- 4.का0 अरुण कुमार

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त जलीस पुत्र निसार शाह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.10.21 को थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त जलीस उर्फ मुल्ला पुत्र निसार शाह निवासी जोशी टोला थाना व जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना खीरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जलीस उर्फ मुल्ला पुत्र निसार शाह निवासी जोशी टोला थाना व जनपद खीरी

बरामदगी:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 524/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त अवनीश उर्फ मनीश पुत्र विष्णु नि0 कस्बा व थाना सिंधौली जनपद शहाजहाँनपुर को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 970/21 धारा 363/376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों 1. मन्ना पुत्र गया प्रसाद नि0 अमरकोट थाना कोतवाली सदर 2. बोधराज पुत्र अर्जुनलाल थाना गोला जनपद खीरी 3. गजेन्द्र पुत्र प्रेमचन्द्र नि0 लोनपुरवा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा अ0सं0 839/21 धारा 323/504/506/427 भादवि में वारंटी अभियुक्त राजेश यादव पुत्र अरबीलाल नि0 गुलाटीपुरवा थाना धौरहरा व अ0सं0 12092/21 धारा 323/504 भादवि में वारंटी अभियुक्त इतवारी पुत्र घुरई नि0 इल्लासपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी व अ0सं0 12346/12 धारा 429 भादवि में वारंटी अभियुक्त रमाकान्त पुत्र बिन्द्रा नि0 उमेठी थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 55 लीटर अवैध शराब सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **55 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध शराब भट्टी सहित बरामद कर 05 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **05 अभियोग** पंजीकृत किए गए।

क्र०सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना सिंगाही	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मितौली	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना पसगवां	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना हैदराबाद	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना फरधान	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	55 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार